



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1978/श्रावण 6, 1900

No. 364]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1978/SRAVANA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश सं०-23/78

खुला सामान्य लाइसेंस सं०-13/78

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

कां०अ 476(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947, (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सरकार, इस आदेश के साथ संलग्न अनुबन्ध में सुचीबद्ध माल के आयात के लिए सभी व्यक्तियों को वक्षिणी अफ्रीका/वक्षिणी, पश्चिमी अफ्रीका संघ, रोडेनिया और चीन के तिब्बती प्रदेश को छोड़कर किसी भी देश को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की अनुमति प्रदान करती है।

(1) आयात किए गए ऐसे माल का उत्पादन या विनिर्माण वक्षिणी अफ्रीका/वक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ, रोडेनिया और चीन के तिब्बती प्रदेश में नहीं किया गया है।

(2) ऐसे माल का खान 31 मार्च, 1979 को या इससे पूर्व, बिना किसी वृद्धि अवधि के, जो भी कुछ हो, भारत को परेषण के माध्यम किया जाता है।

(3) जब ऐसा माल आयात किया जा रहा हो उस समय उसके आयात को प्रमाणी करने वाले लागू कोई निषेध या विनियमन इस लाइसेंस के किसी माल को प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश सं० 23/78 दिनांक 28-7-78 का अनुबन्ध खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमय माल की सूची

1. निम्नलिखित एक्स-रे फिल्मस (चिकित्सा):-

(क) मास मिनिएचर फिल्म सभी व्यक्तियों द्वारा

(ख) दन्त्य एक्स-रे फिल्म

(ग) लो-डोज मोडोराफिक फिल्में

(घ) खेजर्स के लिये उपयोग की जाने वाली विशेष प्रकार की एक्स-रे फिल्में

2. औद्योगिक एक्स-रे

3. एरोनाविक फिल्मस

4. स्टूडियो रिप्रोडक्शन फिल्में

5. माइक्रोफाइल फिल्में

6. इन्फ्रारेड और अल्ट्रावायलेट फिल्में

7. ग्राफिक आर्ट फिल्में

8. भारतीय शेषज नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा सभी व्यक्तियों द्वारा यथा अनुमोदित अन्तर्गतस्थित सर्वनिरोधक साधन

(लिप्पेस लूप और क्यू-टो-200 से इतर)

रंगीन टोपियां, डायक्राम जेली और फॉस डेवलेट्स

[मिजिल सं० आई०पी०सी०/3/15/78]

का० वें० गोपात्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
COOPERATION**

(Department of Commerce)

ORDER NO. 23/78

Open General Licence No. 13/78

New Delhi, the 28th July, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

S.O. 476(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947. (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of goods listed in the Annexure to this Order, by all persons, from any country except the Union of South Africa/South-West Africa, Rhodesia and the Tibet Region of China, subject to the following conditions :—

- (i) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South-West Africa, Rhodesia and the Tibet Region of China.
- (ii) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 31st March, 1979, without any grace period, what-so-ever.
- (iii) Nothing in this Licence shall effect the application to any goods, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

ANNEXURE TO ORDER NO. 23/78 dated 28-7-1978
List of goods allowed for import under OGL.

(i) X-ray films (medical), the following :—

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (a) Mass Miniature film. | By all persons. |
|--------------------------|-----------------|

- (b) Dental X-ray film.
- (c) Lo-dose Mamographic films.
- (d) Special types of X-ray films used for changers.

(ii) Industrial X-ray films.

(iii) Aerographic films.

(iv) Drawing reproduction films.

(v) Microfilm films.

(vi) Infra-red and Ultraviolet films.

(vii) Graphic art films.

(viii) Intrauterine Contraceptive

Devices (other than the Lippes' Loop and Cu-T 200), coloured condoms, diaphragms, jelly and foam tablets, as approved by Drugs Controller of India, New Delhi.

By all persons

[No. IPC/3/15/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports